

## प्रेस नोट दिनांक 27.06.2021

### इटावा पुलिस द्वारा 04 वाहन चोरों को 01 चोरी किये हुए ऑटो व अवैध असलहा सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह द्वारा इटावा पुलिस को दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कालोनी पुलिस द्वारा 04 वाहन चोरों को चोरी किये हुए 01 ऑटो एवं अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया ।

### गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग अभियान के दौरान दिनांक 26/27.06.2021 की रात्रि को थाना फ्रेंड्स कालोनी पुलिस द्वारा पचावली चौराहे पर चैकिंग की जा रही थी । चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को एक ऑटो कुनैरा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया । पुलिस को देखकर ऑटो चालक एवं उसमें बैठे अन्य 03 व्यक्तियों द्वारा ऑटो को वापस कुनैरा की ओर मोड़कर भागने का प्रयास किया गया । ऑटो को चालक द्वारा पीछे मोड़ता देखकर पुलिस टीम को उक्त ऑटो एवं उसमें बैठे व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुए जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पीछाकर घेरकर पकड़ लिया गया ।

**पुलिस पूछताछ-** पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से अवैध असलहा बरामद किये गये जिनके बारे में पुलिस टीम द्वारा लाइसेंस तलब करने पर वह व्यक्ति लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहे तथा पुलिस टीम द्वारा ऑटो को मोड़कर भागने का कारण पूछने पर पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि यह ऑटो चोरी का है और हम लोग अभी भी चोरी की फिराक में निकले हुए हैं ।

पकड़े गये व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि हम लोग सुनसान स्थानों पर खड़े वाहनों से बैट्री एवं डैग चोरी करने का काम करते हैं तथा मौका पडने पर वाहन भी चोरी कर लेते हैं । यह ऑटो भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले आजाद नगर टीला में आरिफ की टाल के पास सड़क से चोरी किया था । उक्त ऑटो चोरी के संबंध में थाना फ्रेंड्स कालोनी पर मु०अ०सं० 243/21 धारा 379 भादवि( बढोत्तरी धारा 411 भादवि बरामदगी पर) अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों से हुए अवैध असलहा की बरामदगी के संबंध में थाना फ्रेंड्स कालोनी पर मु०अ०सं० 244/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं मु०अ०सं० 245/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. फैसल पुत्र स्व० शरीफ नि० आजाद नगर टीला थाना फ्रेंड्स कालोनी इटावा ।
2. इमरान पुत्र स्व० अख्तर नि० काशीराम कालोनी आरटीओ ऑफिस के पास थाना सिविल लाइन इटावा ।
3. राजा पुत्र अनवार नि० नौरंगाबाद थाना कोतवाली जनपद इटावा ।
4. विकास माथुर उर्फ कम्प्यूटर पुत्र स्व० राजकुमार नि० काशीराम कालोनी आरटीओ ऑफिस के पास थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।

### बरामदगी-

1. 01 ऑटो नम्बर यूपी 75 एटी 9550 (चोरी किया हुआ)
2. 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस
3. 01 अवैध चाकू

**पुलिस टीम-** श्री उपेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना फ्रेंड्स कालोनी, व०उ०नि० रमाशंकर उपाध्याय, उ०नि० रामप्रताप, का० जावेद, का० सोनी कुमार ।

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा